



# दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## गोरखपुर-273001

(लैक प्रत्यायित 'B++' श्रेणी)

सम्बद्ध

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

☎ : 0551-2334549

☎ : 09792987700

e-mail : [dnpggkp@gmail.com](mailto:dnpggkp@gmail.com)

website : [www.dnpgcollege.edu.in](http://www.dnpgcollege.edu.in)

पत्रांक : /2020-21

दिनांक 22.06.2021

### प्रकाशनार्थ

आज दिनांक 22 जून 2021 को " एडवांस्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी एप्लीकेशन इन नर्व एजुकेशन पालिसी" विषय पर सप्तदिवासीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन जूम एप के माध्यम से दिग्विजयनाथ पी जी कॉलेज गोरखपुर एवं साइंस टेक इंस्टीट्यूट लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ शैलेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा किया गया। मुख्य वक्ता प्रोफेसर एन. बी. सिंह, रसायन विज्ञान एंड बायोकेमिस्ट्री विभाग, शारदा यूनिवर्सिटी, ग्रेटर नोएडा ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 2030 तक नीतिगत पहलुओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। यह मौजूदा शिक्षा नीति में पूर्ण परिवर्तन है जिसे अंतिम बार 1986 में लागू किया गया था। यह विद्यार्थी की आत्म-क्षमताओं और अवधारणा पर आधारित सीखने की प्रक्रिया है न कि रटने वाली प्रक्रिया। स्नातक कार्यक्रम एक लचीले निकास के साथ 4 साल का कार्यक्रम होगा। जिसमें एक वर्ष का पाठ्यक्रम समाप्त कर लेने के बाद छात्र को प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा, इसके अलावा 2 वर्ष समाप्त कर लेने के बाद डिप्लोमा की डिग्री, स्नातक की डिग्री 3-वर्ष के बाद और 4-वर्ष पूरा कर लेने पर शोध कार्य और अध्ययन किए गए विषय से संबंधित खोज के साथ एकीकृत किया जाएगा।

उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन और वित्त प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा अनुदान परिषद रहेगी। यह एआईसीटीई और यूजीसी की जगह लेगा। एनईईटी और जेईई आयोजित कराने के साथ-साथ विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए आम प्रवेश परीक्षा के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। अनुसंधान और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरए) विकसित किया जाना है। विदेशी विश्वविद्यालय के परिसर हमारे देश में और उनके देश में हमारे परिसर स्थापित करेंगे।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सहित सभी प्रतिभागियों के स्वागत डॉ परीक्षित सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर बनस्पति विज्ञान, दिग्विजयनाथ पी जी कॉलेज द्वारा किया गया एवं संचालन प्रोफ आर. के शुक्ला ने किया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में महाविद्यालय के शिक्षक, अन्य महाविद्यालयों के शिक्षक सहित 248 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन प्रतिभाग किया।

डॉ शैलेश कुमार सिंह  
प्रभारी, सूचना एवं जनसंपर्क